



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 118]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 1977, चैत्र 22, 1899

No. 118]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 1977/CHAITRA 22, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 12th April 1977

G.S.R. 178(E).—In exercise of the powers conferred by rule 34 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following amendment in the notification of the Central Board of Excise and Customs No. 27/77-Central Excises, dated the 25th February, 1977, namely.—

In the said notification, the words "transport certificate or", wherever they occur, shall be omitted.

[No. 59/77]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1977

सा० का० नि० 178(अ) — केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधम, 1944 के विधम 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी अधिसूचना

संख्या 27/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 फरवरी, 1977 में (अधिसूचना संख्या 33/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2-3-1977 द्वारा यथा संशोधित) निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में जहाँ जहाँ "परिवहन प्रमाणपत्र या" शब्द आए हैं उनका लोप किया जाएगा ।।

[सं० 59/77]

'G. S. R. 179(B) — In pursuance of rule 34 of Central Excise Rules, 1944, the Central Board of Excise and Customs hereby directs that in respect of unmanufactured tobacco specified in column 1 of the Table hereto annexed and transported in the manner specified in the corresponding entry in column 2 thereof, the transport certificate shall be valid for the period specified in the corresponding entry in column 3 thereof and shall be subject to such conditions, if any, specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table :—

TABLE

Description of unmanufactured tobacco	Mode of transport	Period of validity	Conditions, if any
1	2	3	4
(1) Virginia or Indian Air-cured 'string' tobacco.	(a) wholly or partly by mechanised vehicle	(i) 12 hours from time of issue. (ii) 24 hours from time of issue.	if the distance to be covered is 250 kms. or less if the distance to be covered is more than 250 kms.
	(b) wholly by non mechanised vehicle	(i) upto 6 A.M. following the date of issue. (ii) upto 6 A.M. of 2nd day following the date of issue.	if the distance to be covered is 30 kms. or less if the distance to be covered is more than 30 kms.
(2) All others	(a) wholly or partly by mechanised vehicle	(i) 6 hours from the time of issue but not to extend beyond mid-night of the date of issue. (ii) upto 12 noon of the day following the date of issue.	if the transport involves crossing of one or more ferries which do not operate during the night
	(b) wholly by non mechanised vehicle	upto sunset of the day following the date of issue.	

[No. 60/77]

S. K. BHARADWAJ,
Central Board of Excise and Customs.

सा० का० वि० 179(प्र).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 34 के अनुसरण में, निदेश करता है कि इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट और उसके स्तम्भ 2 में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से परिवहनित अधिविनिर्मित तंबाकू के संबंध में परिवहन प्रमाणपत्र उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट

अवधि के लिए तथा उसके स्तम्भ 4 में की तस्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहने हुए, विधिमान्य होगा —

सारणी

अविनिमित्तम्बाकू का विवरण	परिवहन की पद्धति	विधिमान्यता की अवधि	शर्तें, यदि कोई हों
1	2	3	4
(1) बर्जिनिया या भारतीय वायु संसाधित, स्ट्रिंग तबाकू	(क) पूर्णतया या अंशतया यंत्र- चालित यान द्वारा	(i) जारी किए जाने के समय में 12] घण्टे	यदि तय की जाने वाली दूरी 250 किलोमीटर या उससे कम है।
		(ii) जारी किए जाने के समय से 24 घण्टे।	यदि तय की जाने वाली दूरी 250 किलो- मीटर से अधिक है।
	(ख) पूर्णतया यंत्र- बिहीन यान द्वारा	(i) जारी किए जाने की तारीख के ठीक आगामी दिन पूर्वाह्न 6 बजे तक।	यदि तय की जाने वाली दूरी 30 किलो- मीटर या कम है।
		(ii) जारी किए जाने की तारीख के आगामी दूसरे दिन पूर्वाह्न 6 बजे तक	यदि तय की जाने वाली दूरी 30 किलो- मीटर से अधिक है।
(2) अन्य सभी	(क) पूर्णतया या अंशतया यंत्र- चालित यान]	(i) जारी किए जाने के समय से 6 घण्टे किन्तु जारी किए जाने की तारीख को अर्ध- रात्रि के पश्चात नहीं।	
		(ii) जारी किए जाने की तारीख के ठीक आगामी दिन बोपहर 12 बजे तक।	यदि परिवहन में एक या अधिक ऐसी फेरियों से पार करने का कार्य सम्मिलित हो जो रात्रि के समय नहीं चलती है।

1	2	3	4
	(ख) पूर्णतया यंत्र- विहीन यान ।	जारी किए जाने की तारीख के ठीक आगामी दिन सूर्यास्त तक ।	

[सं० 60/77]

एस० के० भारद्वाज, अवर सचिव,
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977